



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 पौष 1946 (श०)

(सं० पटना 22) पटना, बृहस्पतिवार, 9 जनवरी 2025

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
28 दिसम्बर 2024

सं० 2/सी01-20-04/2024 गृ०आ० 16050—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार पुलिस सेवा के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को निम्नांकित शर्तों के अधीन वेतनमान—लेवल-9 (रु० 53,100-1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र०	अभ्यर्थी का नाम/अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम	गृह जिला	रौल नं०	आरक्षण कोटि (बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आवंटित)	मेधा क्रमांक	विभाग में सत्यापन के दौरान उपलब्ध कराया गया स्थायी पता
1	श्री उज्ज्वल कुमार उपकार, पिता—सुबोध ठाकुर।	सीतामढ़ी	151968	01—अनारक्षित	01	ग्राम+पोस्ट—रायपुर थाना—नानपुर जिला—सीतामढ़ी, बिहार, पिन— 843326
2	श्री सर्वेश कुमार, पिता—श्री कमलेश प्रसाद।	गया	298547	01—अनारक्षित	02	ग्राम+पोस्ट—कुजापी, थाना—चन्द्रौती, जिला—गया, बिहार, पिन— 823002

3	श्री शिवम तिवारी, पिता—श्री बृजेश तिवारी ।	देवरिया (उ०प्र०)	130039	01—अनारक्षित	03	ग्राम +पोस्ट —बरांव, थाना—मदनपुर जिला—देवरिया, उत्तर प्रदेश, पिन—274205
4	श्री पवन कुमार, पिता—श्री राजेश कुमार सिंह ।	बक्सर	152460	01—अनारक्षित	04	ग्राम +पोस्ट —सोनवर्षा, थाना—नावानगर, जिला—बक्सर, बिहार, पिन—802125
5	श्री संदीप कुमार सिंह, पिता—श्री सुदर्शन सिंह	गोपालगंज	110176	01—अनारक्षित	07	ग्राम—परसौनी पोस्ट—बतरदेह थाना—सिधवलिया, जिला—गोपालगंज, बिहार पिन—841405
6	श्री राजन भारती पिता—श्री जर्नादन भारती	सिवान	101488	01—अनारक्षित	08	ग्राम—मदेशिलापुर (पश्चिम टोला), पोस्ट+थाना—आन्दर, जिला—सिवान, बिहार, पिन—841231
7	श्री विक्रमजीत सिंह, पिता—रमेश कुमार सिंह ।	सारण	102035	01—अनारक्षित	15	ग्राम—सिद्धनाथ चौक, पोस्ट+थाना—सोनपुर, जिला—सारण, बिहार पिन—841101
8	श्री नवनीत आनंद, पिता—श्री अजय कुमार ठाकुर ।	मुजफ्फरपुर	145631	01—अनारक्षित	16	ग्राम +पोस्ट —आगानगर थाना—मनियारी, जिला—मुजफ्फरपुर, राज्य—बिहार, पिन कोड—842002
9	श्री अभिषेक कुमार, पिता—श्री मुन्ना राम	सिवान	103706	02—अनुसूचित जाति	21	ग्राम—पहाड़पुर, पोस्ट— सदरपुर, थाना—बड़हरिया, जिला—सिवान, बिहार, पिन कोड—841232
10	श्री अंकित कुमार रंजन, पिता— श्री रुदल पंडित ।	भागलपुर	217606	04—अत्यंत पिछड़ा वर्ग	23	वार्ड सं०—16, ग्राम—पश्चिमी टोला भोलसर, पोस्ट—एकचारी, थाना— कहलगांव, जिला— भागलपुर, बिहार, पिन न०—813204
11	सुश्री मोनिका कुमारी, पिता—राकेश कुमार केशरी,	सीवान	103717	01—अनारक्षित	25	ग्राम—निराला नगर, सिवान, पोस्ट+थाना — सिवान, जिला—सिवान, बिहार, पिन कोड—841226

12	श्री अनुराग कुमार, पिता—राम प्रसाद	रोहतास	309367	04—अत्यंत पिछड़ा वर्ग	27	ग्राम—कुम्हार टोली मोहल्ला, वार्ड—34 (महावीर मंदिर के नजदीक) पोस्ट—डेहरी, जिला—रोहतास, बिहार, पिन कोड—821307
13	श्री अंकित कुमार, पिता—अशोक प्रसाद शर्मा	नालन्दा	356525	07—आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग)	44	ग्राम+पोस्ट—पोआरी, थाना—हरनौत, जिला—नालन्दा, बिहार, पिन कोड—803110
14	सुश्री प्रीति कुमारी, पिता—भूपेन्द्र राय	सिवान	102151	07—आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	62	ग्राम+पोस्ट—सिरिसियाँ, थाना— नौतन, जिला—सिवान, बिहार, पिन कोड—841243
15	श्रीमती पूजा कुमारी, पिता—अवध किशोर यादव,	मुंगेर	250768	06—पिछड़े वर्गों की महिला	76	ग्राम— पोखरिया, पोस्ट—हवेली खडगपुर, थाना—हवेली खडगपुर, जिला—मुंगेर, बिहार, पिन कोड—811213
16	सुश्री भावना कुमारी, पिता—विनोद कुमार साह	पूर्णिया	232727	04—अत्यंत पिछड़ा वर्ग	116	ग्राम—हरदा बाजार हरदा, थाना—सहायक मरंगा, डाकघर —हरदा, जिला— पूर्णिया, पिन कोड—854303
17	सुश्री सुधा राज, पिता—अवधेश राम	औरंगाबाद	284226	02—अनुसूचित जाति	143	ग्राम—यमुना नगर, भाहपुर (सूर्य मंदिर के निकट), थाना+डाकघर—औरंगाबाद, जिला— औरंगाबाद, बिहार, पिन कोड—824101,

2. (क) अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित स्थायी पता एवं पत्राचार के पता से संबंधित स्थानीय थानों से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही इनका पदस्थापन किया जा सकेगा।

(ख) अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित पूर्ववृत्त सत्यापन के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

(ग) अनुशंसित अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की संपुष्टि संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से करवायी जा रही है। इस संबंध में किसी भी अनुशंसित अभ्यर्थियों के विरुद्ध सत्यापन के क्रम में उनके आवेदन से किसी प्रकार की भिन्नता परिलक्षित होती है तो उनकी नियुक्ति बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(घ) बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 648(क) के अनुरूप सभी नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों की परीक्ष्यमान अवधि 03 वर्षों की होगी।

(ङ) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक— 2763 दिनांक—23.02.2016 की कंडिका—03 के निहित प्रावधानों के आलोक में नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों की आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

3. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0—1964, दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार उक्त पुलिस पदाधिकारियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

4. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के क्रम में आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5. अनुशंसित अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित किसी भी प्रमाण पत्र को गलत पाया जायेगा तो उसकी जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी और उनकी नियुक्ति पर सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

6. अनुशंसित सभी अभ्यर्थी विभाग द्वारा निर्गत फोटोयुक्त नियुक्ति-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय में प्रस्तुत कर योगदान करेंगे। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र समर्पित नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों को पुलिस मुख्यालय, बिहार के स्तर से बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, गया में दिनांक 01.01.2025 से प्रारंभ होने वाले प्रवेशकालीन प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु विरमित किया जाएगा तथा प्रशिक्षणरत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण अवधि का वेतन इत्यादि का भुगतान बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा।

9. सभी अभ्यर्थियों द्वारा योगदान के समय/प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की समाप्ति के तुरंत उपरांत निम्नांकित दस्तावेज बिहार पुलिस मुख्यालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :—

(क) असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

(ख) दहेज नहीं लेने या नहीं देने संबंधी घोषणा पत्र।

(ग) चल—अचल सम्पत्ति की विवरणी।

(घ) पासपोर्ट साईज का दो अद्यतन फोटो।

10. जिन अभ्यर्थियों ने सत्यापन के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण पत्र/कागजात समर्पित नहीं किया है, उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त करने से पूर्व/प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के उपरांत वांछित प्रमाण पत्र/कागजात विभाग में अवश्य समर्पित करना होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार दास,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 22-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>